

# **KRA LEASING LIMITED**

CIN: L65993DL1990PLC039637;

Ph. No: 0124-4746817 E-mail: [kraleasing1990@gmail.com](mailto:kraleasing1990@gmail.com); Website: [www.kraleasing.com](http://www.kraleasing.com)

Regd. Off: C-20, SMA Co-operative Industrial Estate, G.T. Karnal Road, Delhi-110033

Corp. Off: Plot No.3, Sector-11, IMT Manesar, Gurugram-122050, Haryana

Date: 15.08.2021

To,  
Department of Corporate Services- Compliances  
Metropolitan Stock Exchange of India Ltd  
Building A, Unit 205A, 2nd Floor,  
Piramal Agastya Corporate Park,  
L.B.S Road, Kurla West, Mumbai-400 070

**Sub: Publication of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30<sup>th</sup> 2021**

Dear Sir/Madam,

This is with reference to Regulation 33 read with Regulation 47 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith clipping of Publication of Consolidated Unaudited financial results for quarter ended 30<sup>th</sup> June 2021 published in the "Jansatta" (Hindi News Paper) and "The Financial Express" (English Newspaper) dated 15<sup>th</sup> August 2021.

This is for your kind information and record please.

**Thanking You**

**Yours Truly  
For KRA Leasing Limited**



**Ridhima Gupta  
Company Secretary & Compliance Officer  
M. No.: 61965  
Enclosed: C.C.**

**जिला नगरा विकास अभिकरण (डूडा), शाहजहापुर**  
**संशोधित अल्पकालीन ई-निविदा सूचना**  
 पत्रांक- 2196/डूडा/ई-निविदा/2021-22 दिनांक- 14.08.2021  
 इस कार्यालय के पत्रांक-1973/डूडा/ई-निविदा/2021-22 दिनांक-06.08.2021 के द्वारा जनपद शाहजहापुर में संचालित 16 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा कार्य हेतु संशोधित अल्पकालीन ई-निविदा दिनांक-16.08.2021 तक आमंत्रित की गयी थी, परन्तु तकनीकी समस्या के कारण निर्धारित तिथि में वृद्धि करते हुये अब उक्त निविदायें दिनांक- 31.08.2021 तक अपलोड की जा सकती है। आमंत्रित निविदायें दिनांक-01.09.2021 को प्रातः-11:00 बजे परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), शाहजहापुर के कार्यालय कक्ष में निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदाओं से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है।

**परियोजना अधिकारी**  
**जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), शाहजहापुर**

**केआरए लिजिंग लिमिटेड**  
 CIN : L65993DL1990PLC039637; Ph. No: 0124-4746817; E-mail : kraleasing1990@gmail.com; Website: www.kraleasing.com  
 पंजीकृत कार्यालय: सी-20, एसएमए-को-आपरेटिव इन्डस्ट्रियल इस्टेट, जी० टी० करनाल रोड, दिल्ली-110033  
 कारपोरेट कार्यालय: प्लॉट नं० 3, सेक्टर-11, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम-122050, हरियाणा

**30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही उद्घारित एकीकृत वित्तीय परिणाम** (रु. लाख में)

विवरण	एकीकृत		
	30.06.2021 को समाप्त तिमाही अनअंकेषित	30.06.2020 को समाप्त तिमाही अनअंकेषित	31.03.2021 को समाप्त वार्षिक अंकेषित
प्रचालन से कुल आय (नेट)	81,24,497	63,06,256	2,68,55,027
अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (कर से पहले, असाधारण एवं/अथवा असाधारण मदों के परचात)	69,27,160	51,12,544	2,10,50,565
अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (कर से पहले, असाधारण एवं/अथवा असाधारण मदों के परचात)	69,27,160	51,12,544	2,04,35,101
अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (कर से पहले, असाधारण एवं/अथवा असाधारण मदों के परचात)	54,19,310	41,30,807	1,63,74,358
अवधि के लिए (कुल व्यापक आय (अवधि के लिए व्यापक लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय मिलाकर (कर परचात)	54,19,310	41,12,175	1,65,08,140
प्रदत्त इक्विटी शेयर कैपिटल (अंकेषित मूल्य रू० 10/- प्रत्येक)	-	-	6,29,73,640
रिजर्व (के रूप में पिछले वर्ष की बेलेंस शीट में दिखाया गया रिजर्व रिम्यून्ड बंडर को छोड़कर)	NA	NA	33,28,60,926
प्रति शेयर आय (रू० 5/ प्रत्येक) (असाधारण मदों के परचात)	0.40	0.65	1.23
डायल्यूटेड प्रति शेयर आय (रू० 5/ प्रत्येक) (असाधारण मदों के परचात)	0.40	0.65	1.23

**नोट्स:**  
 सेबी (सूची एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियम, 2015 के नियम 33 के अन्तर्गत 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के उपरोक्त उद्घारित संगठित एवं एकीकृत अनअंकेषित परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों में अपलोड किये गये। 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही संगठित एवं एकीकृत के पूर्ण प्रारूप परिणाम स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट [www.mse.in](http://www.mse.in) एवं कम्पनी की वेबसाइट [www.kraleasing.com](http://www.kraleasing.com) पर उपलब्ध हैं।

**कृते केआरए लिजिंग लिमिटेड**  
 हस्ता./- राजेश मेहरा  
 प्रबन्ध निदेशक एवं सीएफओ  
 DIN: 00058232

तिथि: 14.08.2021  
 स्थान: गुरुग्राम

**RPIL रिशेश प्रोपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड**  
 पंजीकृत कार्यालय: 11/5बी, पुसा रोड, नई दिल्ली-110060  
 CIN: L74899DL1987PLC027050, वेबसाइट: [www.riteshindustries.us](http://www.riteshindustries.us),  
 ईमेल: [riteslimited8@gmail.com](mailto:riteslimited8@gmail.com) फोन: 011-41537951/-91-9212359076

**30.06.2021 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश** (रु. लाख में)

विवरण	समाप्त तिमाही 30.06.2021 अनअंकेषित	समाप्त तिमाही 31.03.2021 अनअंकेषित	समाप्त तिमाही 30.06.2020 अनअंकेषित	समाप्त वर्ष 31.03.2021 अंकेषित
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	3907.77	1986.38	5453.59	9065.36
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशेष तथा/या असाधारण मदों से पूर्व)	112.63	600.65	502.40	979.15
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशेष तथा/या असाधारण मदों के बाद)	112.63	600.65	502.40	979.15
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशेष तथा/या असाधारण मदों के बाद)	115.72	526.09	408.02	844.78
अवधि के दौरान कुल व्यापक आय [अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को शामिल करके]	116.81	509.87	408.02	828.55
भुगतान इक्विटी शेयर पूंजी	1159.10	1159.10	1159.10	1159.10
इक्विटी शेयर पूंजी का अंकित मूल्य	10.00	10.00	10.00	10.00
आरक्षित (पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त)	3072.95	2847.35	2426.82	2847.35
आय प्रति शेयर (10/-रु. प्रति) (जारी व बंद प्रचालनों हेतु)				
1. मूल	1.00	1.00	4.54	4.54
2. तनुकृत	3.52	3.52	7.29	7.29

**टिप्पणी:** उपरोक्त विवरण सेबी (आपत्तियों के सूचीकरण तथा अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमनों, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत शेयर बाजार में दाखिल किए गए 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों का संपूर्ण विवरण शेयर बाजार की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और कम्पनी की वेबसाइट [www.riteshindustries.us](http://www.riteshindustries.us) पर उपलब्ध है।

**कृते रिशेश प्रोपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड**  
 हस्ता./- राजेश मेहरा  
 प्रबन्ध निदेशक एवं सीएफओ  
 DIN: 00058232

दिनांक: 14.08.2021  
 स्थान: गुरुग्राम

**ORACLE CREDIT LIMITED**  
 Regd. Off: P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016  
 CIN: L65910DL1991PLC043281  
 E-mail: [oracle\\_credit@yahoo.co.in](mailto:oracle_credit@yahoo.co.in), [info@oraclecredit.co.in](mailto:info@oraclecredit.co.in)  
 Website: [www.oraclecredit.co.in](http://www.oraclecredit.co.in) Phone: 011-26167775

**Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2021**

Sl. No.	Particulars	(Rs. In lakhs)		
		Quarter ended 30.06.2021 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2020 (Unaudited)	Year ended 31.03.2021 (Audited)
1.	Total Income from Operations	9.42	8.07	34.85
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	5.74	5.61	21.35
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5.74	5.61	21.35
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4.30	4.20	15.98
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	4.30	4.20	15.98
6.	Equity Share Capital	555.00	555.00	555.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in Audited Balance Sheet	-	-	38.62
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
	1. Basic	Rs.0.077	Rs.0.076	Rs.0.228
	2. Diluted	Rs.0.077	Rs.0.076	Rs.0.228

**Notes:**  
 1. The above is an extract of detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the website of Stock Exchange at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and Company's Website at [www.oraclecredit.co.in](http://www.oraclecredit.co.in).  
 2. The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective Meeting(s) held on 14-August-21.

**By the Order of the Board For Oracle Credit Limited**  
 Sd/-  
**Ashok Kumar Jain**  
 Managing Director

Place: New Delhi  
 Date: 14.08.2021

**BCC FUBA INDIA LIMITED**  
 Regd. Office : 4 K.M., Swarghat Road, Nalagarh -174101, Distt. Solan (H.P.)  
 CIN : L51395HP1985PLC012209, Tel. : 8626853157, Website : [www.bccfuba.com](http://www.bccfuba.com)

**Extract of UN-Audited Financial Results for the Quarter Ended 30<sup>th</sup> June, 2021**

S. No.	Particulars	(Rs. In lacs)			
		Quarter Ended 30.06.2021 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2020 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2021 (Audited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)
1	Total Income from Operations	574.12	100.10	2,689.51	4,445.22
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	25.88	(20.95)	19.84	54.26
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	25.88	(20.95)	19.84	59.01
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	25.88	(20.95)	19.84	59.01
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	25.88	(20.95)	16.00	55.17
6	Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	1,531.01	1,531.01	1,531.01	1,531.01
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	-
8	Earning per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- Basic (In Rs.) Diluted (In Rs.)	0.17 0.17	(0.14) (0.14)	0.10 0.10	0.36 0.36

**Note:** 1 The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the 01<sup>st</sup> Quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the 01<sup>st</sup> Quarter ended Financial Results is available on the Stock Exchange websites ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and Company's website ([www.bccfuba.com](http://www.bccfuba.com)).  
 2 There are no extra ordinary items during the Quarter ended June, 2021 but year ended March, 2021 had exceptional item.  
 3 The figures of the previous year/quarter have been regrouped/rearranged wherever necessary to correspond with the current year figures.

**By the order of the Board For BCC FUBA INDIA LTD.**  
 Sd/-  
**Abhinav Bhargava**  
 Director (DIN 06785965)

Place : New Delhi  
 Date : August 14, 2021

**STANDARD CAPITAL MARKETS LIMITED**  
 CIN:L74899DL1987PLC027057  
 Registered Office : 8/28, WEA ABDUL AZIZ ROAD, KAROL BAGH, NEW DELHI - 110005  
 Email: [stancap.delhi@gmail.com](mailto:stancap.delhi@gmail.com); Website:[www.stancap.in](http://www.stancap.in), CONTACT No. 011-28759592

**Statement of Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter ended 30th June 2021**

Particulars	(Rs. In Lakhs, except per share data)			
	Quarter Ended 30.06.2021 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2021 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2020 (Unaudited)	Year ended 31.03.2021 (Audited)
<b>I. Revenue from Operations</b>				
Interest Income	8.73	4.36	9.29	32.12
Dividend Income	-	-	-	-
Rental Income	-	-	-	-
Fees and commission Income	-	-	-	-
Net gain on fair value changes	-	-	-	-
Net gain on derecognition of financial instruments under amortised cost category	-	-	-	-
Sale of products (including Excise Duty)	-	-	-	-
Sale of services	-	-	-	-
Other Revenue from Operations	-	-	-	-
<b>Total Revenue from Operations</b>	8.73	4.36	9.29	32.12
Other Income	-	-	-	-
<b>Total Income</b>	8.73	4.36	9.29	32.12
<b>II. Expenses</b>				
Cost of materials consumed	-	-	-	-
Purchases of stock-in-trade	-	-	-	-
Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade	-	-	-	-
Employee benefit expense	1.78	2.47	3.00	9.54
Finance Costs	2.76	1.07	2.51	10.07
Depreciation, depletion and amortisation expense	-	-	-	-
Fees and commission expense	-	-	-	-
Net loss on fair value changes	-	-	-	-
Net loss on derecognition of financial instruments under amortised cost category	-	-	-	-
Impairment on financial instruments	-	-	-	-
Other expenses(Any item)	1.86	69.94	0.62	73.87
<b>Total Expenses</b>	6.40	73.48	6.13	93.48
<b>III. Profit/(Loss) before exceptional items and tax (I-II)</b>	2.33	(69.12)	3.16	(61.36)
<b>IV. Exceptional items</b>	-	7.70	-	7.70
<b>V. Profit/(Loss) before Tax (III+IV)</b>	2.33	(76.82)	3.16	(69.06)
<b>VI. Tax Expense:</b>				
(i) Current Tax	0.61	(1.28)	0.79	0.74
(ii) Deferred Tax(Net)	-	-	-	-
(iii) Provision for taxation	-	-	-	-
<b>Total Tax Expenses</b>	0.61	(1.28)	0.79	0.74
<b>VII. Net Profit/(Loss) for the period (V-VI)</b>	1.72	(75.54)	2.37	(69.80)
<b>VIII. Other Comprehensive Income</b>				
A. (i). Items that will not be reclassified to profit or loss (ii). Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss	-	-	-	-
B. (i). Items that will be reclassified to profit or loss (ii). Income tax relating to items that will be reclassified to profit loss.	-	-	-	-
<b>Total other Comprehensive income (A+B)</b>	-	-	-	-
<b>IX. Total Comprehensive income (VII+VIII)</b>	1.72	(75.54)	2.37	(69.80)
<b>X. Paid-up Equity Share Capital Equity Shares of(Face Value Rs. 10/-)</b>	400.01	400.01	400.01	400.01
<b>XI. Reserves as at 31st March</b>	-	-	-	(65.55)
<b>XII. Earnings Per Share (EPS) on Face Value Rs. 10/-</b>				
(a) Basic	0.04	(1.89)	0.06	(1.74)
(b) Diluted	0.04	(1.89)	0.06	(1.74)

**Notes:**  
 1- The Company is having only one business activity so the segment reporting under Ind AS-108 is not required.  
 2- The Above result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on 14 August 2021. The Statutory Auditor of the Company has provided Limited Review Report for the same.  
 3- Figures of previous periods were re-grouped/re-classified wherever necessary to confirm to the periods of current periods.  
 4- Indian Accounting Standards are applicable on the Company w.e.f 1st April 2019.

**On Behalf of the Board For Standard Capital Markets Limited**  
 Sd/-  
**Kishore Kargetti**  
 Director  
 DIN:00095763

Place: New Delhi  
 Date: 14 August 2021

**इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड**  
 पंजीकृत कार्यालय : सी-24, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024, भारत  
 सीआइएन : L31909DL1995PLC277176, दूरभाष : +91-11-41552579  
 ई-मेल : [info@integratedtech.in](mailto:info@integratedtech.in), वेबसाइट : [www.integratedtech.in](http://www.integratedtech.in)

**30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम** (रु. लाख में, प्रति शेयर डाटा को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			
		30.06.2021 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2021 (लेखापरीक्षित)	30.06.2020 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2021 (लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से आय (क) निवल विक्री/प्रचालनों से आय (ख) अन्य प्रचालन	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अन्य आय	0.00	0.00	0.00	0.00
3	कुल आय (1+2)	0.00	0.00	0.00	0.00
4	व्यय (क) उपभूत सामग्री का लागत (ख) व्यापार में स्टॉक की खरीद	0.00	0.00	0.00	0.00
5	अन्य व्यय (क) वेतन भाल, प्रशासकीय कार्य तथा व्यापार में स्टॉक की इन्वेंट्री में परिवर्तन (ख) कर्मचारी लाभ व्यय (घ) वित्तीय लागत (च) मूल्यांकन व्यय (छ) अन्य व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
6	कुल व्यय {4(क) से 4(घ)}	1.28	7.12	0.81	12.41
7	अवधि के लिए असाधारण मदों एवं कर से पूर्व कुल लाभ (3-4)	(1.28)	(7.12)	(0.81)	(12.41)
8	अवधि के लिए असाधारण मदों के परचात	0.00	0.00	0.00	0.00
9	कर पूर्व कुल लाभ (5-6)	(1.28)	(7.12)	(0.81)	(12.41)
10	कर व्यय चालू कर आस्थानी कर कुल कर व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
11	कर परचात अवधि हेतु लाभ (7-8)	(1.28)	(7.12)	(0.81)	(12.41)
12	अन्य व्यापक आय (ओसीआई) (क) लाभ और हानि के लिए पुनः वर्गीकृत भंड (कर का निवल) (ख) लाभ तथा हानि के लिए पुनर्गणना करने से होने वाली भंड (कर का निवल)	0.00	0.00	0.00	0.00
13	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (9 + 10)	(1.28)	(7.12)	(0.81)	(12.41)
14	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (रु. 10/- प्रत्येक का प्रदत्त इक्विटी शेयर, पूर्ण प्रदत्त)	478.15	478.15	478.15	478.15
15	अन्य इक्विटी	-	-	-	-
16	आय प्रति शेयर [रु. 10 के शेयरों का नाममात्र मूल्य (गत वर्ष रु. 10)] (वर्षांतिकीकृत नहीं)	(0.03)	(0.15)	(0.02)	(0.26)
17	(क) बेसिक (ख) डायल्यूटेड	(0.03)	(0.15)	(0.02)	(0.26)

**टिप्पणी:**  
 1. उपर्युक्त वित्तीय परिणाम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 एवं उसके तहत निर्मित नियमों के साथ पठित के अनुसार निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एसएस) के अनुसार तैयार किये गये हैं। इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("कम्पनी") के वार्षिक लेखापरीक्षकों ने यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्धता) दिशानिर्देश एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार उपर्युक्त परिणामों की समीक्षा की है और संशोधित समीक्षा विचार प्रस्तुत किए हैं।  
 2. कम्पनी एक प्रकटन खाद्य "प्रिंटिंग सर्विसेज" में प्रचालन करती है। अतः इंड एसएस 108 "प्रचालन खाद्य" के अनुसार कोई अलग रिपोर्ट करने योग्य खाद्य नहीं है।  
 3. 30 जून, 2021 को समाप्त उपर्युक्त लेखापरीक्षित परिणामों समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गयी है और निदेशक मण्डल द्वारा आयोजित 14 अगस्त, 2021 को उनकी संशोधित बैठक में अनुमोदित की गयी है।  
 4. 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के आंकड़े पूर्ण वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित आंकड़ों तथा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही तक वर्ष तक समीक्षित आंकड़ों के मध्य सन्तुलकारी आंकड़े हैं।  
 5. कम्पनी ने सम्पादित प्रभावों पर विचार किया है जो कोविड 19 महामारी के कारण सम्पत्ति की गिरावट, संयन्त्र तथा उपकरण, इन्वेंट्री, प्रतियोगिता तथा अन्य चालू अस्थिरताएं पर पड़ सकते हैं। इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक स्थितियों में सम्पादित भावी अनिश्चितताओं से सम्बन्धित स्थितियों में प्रवन्धन ने इन वित्तीय परिणामों के अनुमानों तक कम्पनी के प्रभावित भावी कार्य निष्पन्न करने के आर्थिक तथा वास्तविकताओं का उपयोग किया है। प्रवन्धन ने अनुमानों का उपयोग करके संवेदनशीलता विश्लेषण किया है और भावी आर्थिक दशाओं के वर्तमान सूचकों के आधार पर आशा है कि इन अस्थिरताओं की गिरावट को दूर करने में सक्षम रहेगा और न्यूनतम अगले 12 माह के लिए व्यावसायिक प्रचालनों के लिए पोषण हेतु पर्याप्त तरलता उपलब्ध होगी। महामारी की अनिश्चितताओं के कारण भविष्य में कम्पनी की आस्थिरता पर अन्तिम प्रभाव इन वित्तीय परिणामों के अनुमानों की तिथि पर किये गये आकलन से भिन्न हो सकते हैं और कम्पनी भावी आर्थिक दशाओं में किसी तात्कालिक परिवर्तन को महारत से निराकरण करती रहेगी।  
 6. सेबी (सूचीबद्धता) दिशानिर्देश एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अन्तर्गत उपर्युक्त परिणामों के परिप्रेक्ष्य में प्रवन्ध निदेशक तथा सीएफओ से प्राप्त प्रमाणपत्र निदेशक मण्डल के समक्ष रखा दिये गये हैं।  
 7. गत अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के समरूप पुनर्गणना/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

**इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड**  
 के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से  
 हस्ता./- (राजीव जाली)  
 प्रबन्ध निदेशक  
 सीआइएन : 00729728

स्थान : नई दिल्ली  
 तिथि : 14 अगस्त, 2021

**जेएमजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड**  
 पंजीकृत कार्यालय : 574, दूसरी

### RATHI INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off : A-24/6, Mohan Co-operative Indl. Estate, Mathura Road New Delhi - 110044  
CIN:- L74899DL1991PLC046570

#### Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2021

S. No.	Particulars	Rs. in Cr.		
		Quarter ended 30-06-2021	Quarter ended 31-03-2021	Year ended 31-03-2021
		Unaudited	Audited	Audited
1	Total income from operations	125.00	165.97	455.80
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1.20	(1.55)	4.23
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.20	(1.98)	3.80
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.00	(1.98)	2.63
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)]	1.00	(1.98)	2.63
6	Equity Share Capital	6.46	6.46	6.46
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	59.02
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
	a. Basic (Rs.)	1.55	(3.07)	4.07
	b. Diluted (Rs.)	1.55	(3.07)	4.07

**Note:** The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website: www.mseil.in and on Company's Website: rathistelmax.com.

**By Order of the Board For Rathi Industries Limited**  
Sd/-  
**Sangram Singh**  
Whole Time Director  
DIN: 01188132

Date: 14.08.2021  
Place: Chhapraula

### "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

### OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER TRANS. LINE MAINTT.DIV-IV, JKPTCL, AMBEDKAR CHOWK, JAMMU J&K.

Email: extlcd2@gmail.com/Ph/Fax: 0191-2453427  
Subject: Extension of E-NIT No.: TLMD-IV/J/13 of 2021-2022 Dated: 17/07/2021

#### EXTENSION OF DATES

The dates of captioned E-NIT's are hereby extended:

1	Last date for submission of hard copy of e-bid	18-08-2021 (02:00PM)
2	e-Bid submission (end) date & Time	18-08-2021 (02.00PM)
3	Online Commercial and Technical e-Bid opening date & Time	19-08-2021 (02:00 PM)

All other terms and conditions shall remain unchanged.

**Executive Engineer, Transmission Line Maintt. Div.-IV, Jammu**  
DIPJ-2286

### LORDS ISHWAR HOTELS LIMITED

Reg. Off. Hotel Revival, Near Sayaji Garden, Kalagoda Chowk, University Road, Baroda, Gujarat 390002. Tel: 0265 2793545, Fax: 0265 2790228, CIN: L55100J1985PLC008264, E-mail: info@lordsiswar.com, Website: www.lordsiswar.com

#### Extract of Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter ended on 30th June, 2021

Particulars	Rs. in Lacs		
	Quarter ended 30.06.2021	Year ended 31.03.2021	Quarter ended 30.06.2020
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
Total Income from operations	83.03	107.13	23.35
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(16.39)	(1.12)	(32.35)
Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(16.39)	(1.12)	(32.35)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(31.97)	1.83	(41.02)
Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-	-	(86.02)
Equity Share Capital	747.00	747.00	747.00
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-
Earnings per equity share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)	(0.43)	0.02	(0.55)
1. Basic:	(0.43)	0.02	(0.55)
2. Diluted:	-	-	-

**Note:** The above is an Extract of the detailed format of unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2021 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said results is available on website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com & on the Company's Website viz. www.lordsiswar.com.

**For LORDS ISHWAR HOTELS LIMITED**  
Sd/-  
**PUSHPENDRA BANSAL**  
Managing Director (DIN: 00086343)

Place : Mumbai  
Date : 14th August, 2021

### RITESH PROPERTIES AND INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: 11/5B, Pusa Road, New Delhi-110060  
CIN: L74899DL1987PLC027050 Website: www.riteshindustries.us  
E-mail: riteshlimited8@gmail.com Ph: 011-41537951/ +91-9212359076

#### STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30.06.2021

Particulars	Rs. in lacs			
	Quarter ended 30.06.2021	Quarter ended 31.03.2021	Quarter ended 30.06.2020	Year ended 31.03.2021
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from operations (Net)	3907.77	1986.38	5453.59	9065.36
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	112.63	600.65	502.40	979.15
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	112.63	600.65	502.40	979.15
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	115.72	526.09	408.02	844.78
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	116.81	509.87	408.02	828.55
Paid-up Equity Share Capital	1159.10	1159.10	1159.10	1159.10
Face value of equity share capital	10.00	10.00	10.00	10.00
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in Audited Balance Sheet of the previous year)	3072.95	2847.35	2426.82	2847.35
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
1. Basic:	1.00	4.54	3.52	7.29
2. Diluted:	1.00	4.54	3.52	7.29

**Notes:** The above is an extract of the detailed format of financial results for the Quarter ended 30th June, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2021 are available on the Stock Exchange Website, www.bseindia.com and Company Website, www.riteshindustries.us

**By Order of the Board For Ritesh Properties and Industries Limited**  
Sd/-  
**(Tarandeep Kaur)**  
Company Secretary

Date : 14.08.2021  
Place : Gurugram

### KRA LEASING LIMITED

CIN : L65993DL1990PLC039637; Ph: No: 0124-4746817; E-mail : kraleasing1990@gmail.com; Website: www.kraleasing.com  
Regd. Off: C-20, SMA Co-operative Industrial Estate, G.T. Karnal Road, Delhi-110033  
Corp. Off: Plot No.3, Sector-11, IMT Manesar, Gurugram-122050, Haryana

#### Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended on 30<sup>th</sup> June, 2021

Particulars	Consolidated		
	Quarter ended on 30.06.2021	Quarter ended on 30.06.2020	Year ended on 31.03.2021
	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from Operations (net)	81,24,497	63,06,256	2,68,55,027
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	69,27,160	51,12,544	2,10,50,565
Net Profit/(Loss) for the period before tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	69,27,160	51,12,544	2,04,35,101
Net Profit/(Loss) for the period	54,19,310	41,30,807	1,63,74,358
Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	54,19,310	41,12,175	1,65,08,140
Paid-up equity share capital [Face value Rs. 5 per share]	-	-	6,29,73,640
Reserves (excluding revaluation reserves as Shown in the Balance Sheet of previous Year)	NA	NA	33,28,60,926
Earnings per share - (after extra-ordinary items) - (of Rs. 5/- each)	0.40	0.65	1.23
Diluted earnings per share- (after exceptional items)- (of Rs. 5/- each)	0.40	0.65	1.23

**Notes:** The above is an extract of the detailed format of the Consolidated unaudited results for the quarter ended on June 30<sup>th</sup> 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Lising and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter ended on June 30th 2021 are available on the Stock Exchange website www.mseil.in and the Company's website www.kraleasing.com.

**For KRA Leasing Limited**  
Sd/-  
**Rajesh Mehra**  
Managing Director Cum CFO  
DIN: 00058232

Dated: 14.08.2021  
Place: Gurugram

### Pritika Auto Industries Limited

Regd. Office: Plot No. C-94, Phase-VII Industrial Focal Point, S.A.S. Nagar Mohali Punjab - 160055  
CIN: L45208PB1980PLC046738, Phone No. 0172-5008900  
Email id: compliance@pratikaautoindustries.com website: www.pritikaautoindustries.com

#### EXTRACT FROM THE STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2021

Particulars	Rs. in Lakh				
	Quarter ended 30.06.2021		FY ended 31.03.2021		
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	
Total Income from Operations	7623.11	8029.17	2314.58	22718.14	
Net Profit/(Loss) before Tax, Exceptional items	704.64	508.77	(328.63)	855.51	
Net Profit/(Loss) before tax after Exceptional items	704.64	508.77	(328.63)	855.51	
Net Profit/(Loss) for the period after tax	541.33	339.67	(239.48)	587.00	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	610.81	482.64	(238.24)	733.70	
Paid up Equity Share Capital	1773.45	1773.45	1773.45	1773.45	
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	10997.11	
Earnings Per Share in Rs. (of Rs. 2/- each)*	Basic	0.61	0.38	(0.27)	0.66
(for continuing and discontinued operations)	Diluted	0.61	0.38	(0.27)	0.66

**Notes:** The above results for the quarter ended 30th June 2021 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 14th August 2021. The Statutory Auditors of the company have carried out a limited review of the aforesaid results in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

**By Order of the Board For Pritika Auto Industries Limited**  
Sd/-  
**Harpreet Singh Nibber, Managing Director**

Date: 14.08.2021

### POONAWALLA FINCORP

POONAWALLA FINCORP LIMITED  
(Formerly MAGMA FINCORP LIMITED)

#### Extract of Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June 2021

Particulars	Quarter Ended	
	30 June 2021	30 June 2020
	(Unaudited)	(Unaudited)
1. Total income from operations	48,319.21	56,990.09
2. Profit before tax	8,102.93	4,702.31
3. Profit for the period	6,453.89	3,771.45
4. Total comprehensive income for the period	6,748.73	4,669.63
5. Paid-up equity share capital (Face value of ₹ 2/- each)	15,286.81	5,390.40
6. Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	214,038.11**	269,409.57*
7. Earnings per share (not annualised)		
(a) Basic (in ₹)	1.12	1.40
(b) Diluted (in ₹)	1.12	1.40

**Notes:** 1) Unaudited Financial Results of Poonawalla Fincorp Limited (Formerly Magma Fincorp Limited) (Standalone Information):

Particulars	Quarter Ended	
	30 June 2021	30 June 2020
	(Unaudited)	(Unaudited)
1. Total income from operations	37,741.98	47,767.24
2. Profit before tax	6,286.31	3,381.12
3. Profit for the period	4,982.31	2,679.57
4. Total comprehensive income for the period	5,098.33	2,639.26
5. Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	188,814.08**	246,140.94*

\* As on March 31, 2020  
\*\* As on March 31, 2021

2) The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified under Section 133 of the Companies Act 2013 ("the Act") read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016. These financial results together with the results for the comparative reporting period have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles as laid down in Ind AS 34 - 'Interim Financial Reporting'. Any application guidance/clarifications/directions issued by the Reserve Bank of India or other regulators are implemented as and when they are issued/applicable.

3) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchanges (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Company (www.poonawallafincorp.com).

**By Order of the Board For Poonawalla Fincorp Limited (Formerly Magma Fincorp Limited)**  
Sd/-  
**Abhay Bhutada**  
Managing Director  
DIN : 03330542

Place : Pune  
Date : 14th August 2021

**POONAWALLA FINCORP LIMITED**  
(Formerly MAGMA FINCORP LIMITED)  
CIN : L51504WB1978PLC031813  
Corporate Office : 601, 6th floor, Zero One IT Park, Sr. No. 79/1, Ghorpadi Mundhwa Road, Pune - 411 036, Phone: 020-6780 8090  
Registered Office : Development House, 24 Park Street, Kolkata - 700 016, Phone: 033-4401 7350  
E-mail: shabnum.zaman@poonawallafincorp.com; Website : www.poonawallafincorp.com

### THE INDIAN WOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

CIN: L20101WB1919PLC003557  
Regd Office: 9, Braourne Road, Kolkata – 700 001  
Email id: iwpho@iwpkatha.co.in, Website: www.iwpkatha.com, Phone: 82320 23820 Fax: 033 - 22426799

#### STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021

Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
	Quarter ended 30.06.2021	Quarter ended 30.06.2020	Year ended 31.03.2021	Quarter ended 30.06.2021	Quarter ended 30.06.2020	Year ended 31.03.2021
	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income From Operation	4,227.03	3,078.74	15,790.36	4,227.03	3,078.74	15,790.36
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Item)	(59.75)	(384.28)	50.77	(47.59)	(360.87)	226.23
Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(59.75)	(384.28)	50.77	(47.59)	(360.87)	226.23
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(57.91)	(387.05)	32.74	(45.75)	(363.64)	208.20
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit] for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(55.57)	(395.26)	41.65	(43.41)	(371.85)	228.47
Equity Share Capital (Face Value Rs. 2/- each)	1,279.75	1,279.75	1,279.75	1,279.75	1,279.75	1,279.75
Reserves excluding Revaluation reserve	-	-	34,156.58	-	-	33,923.88
Earnings per share(Basis & Diluted)	(0.09)	(0.61)	0.05	(0.07)	(0.57)	0.33

**Notes:** 1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Result filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Results are available on the stock exchange's website i.e. www.bseindia.com and also at the website of the Company i.e. www.iwkatha.com.

**By Order of the Board For The Indian Wood Products Co Ltd**  
Sd/-  
**Krishna Kumar Mohta**  
Chairman and Managing Director  
(DIN 00702306)

Place : Kolkata  
Date : 14.08.2021

### UFM INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office : Meherpur, Silchar, Assam - 788015, Phone: 03842 224822/996, Fax: 03842 241539  
Email: ufm.investorgrievances@gmail.com; Website: ufmindl.weebly.com  
CIN : L15311AS1986PLC002539

#### Extract of the Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2021

Particulars	Quarter Ended		
	30.06.2021	30.06.2020	Year Ended 31.03.2021
	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from Operations	1,822.44	2,157.04	8,515.36
Net Profit/(Loss) before tax and exceptional items	19.66	95.45	152.97
Net Profit/(Loss) before tax after exceptional items	19.66	95.45	152.97
Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	14.91	70.53	116.29
Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax)	14.91	70.53	116.29
Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	593.26	593.26	593.26
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)			
- Basic and Diluted (₹)	0.25	1.19	1.96

**NOTES TO FINANCIAL RESULTS:**

1. The above results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 14th August, 2021. The Statutory Auditors have carried out an audit of the above results.

2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website and also on the Company's website www.ufmindl.weebly.com

**By order of the Board For UFM Industries Limited**  
Sd/-  
**Mahabir Prasad Jain**  
Managing Director  
DIN : 00498001

Place : Silchar  
Date : 14th August, 2021

### E Auction Sale Notice under IBC, 2016

Sale Notice under IBC, 2016 of  
M/s Two Brothers Beverage Pvt. Ltd. (in Liquidation)  
CIN : U15122DL2015PTC262963  
Regd. Off: G-5, Ground Floor, Khirabad 27-B, New Friends Colony (Near Lions Hospital) New Delhi  
Liquidator's Office : 172, Plot No-7-C, Green Tower, Sector-23, Dwarka, New Delhi-110077

Sale of Plant and Machinery including Vehicle (Mahindra TUV-300-2016 model) in name of M/s Two Brothers Beverage Pvt. Ltd. (In Liquidation) by the liquidator appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform <https://ncltauction.auctiontiger.net>

Description	Date and Time of E-Auction	Reserve Price (INR)	EMD Amount & Documents submission deadline	Bid incremental value
Sale of the Plant and Machinery situated at F-607 & 608, PHASE-III, Massori Gulwari Road, Industrial Area., Dhaula Gulawati Marg, Dasna, Uttar Pradesh 201015 including vehicle (TUV-300) register number DL-12-CJ-9576	19.08.2021 Time: 11:00 AM to 05:00 PM	Rs. 30.48 lakhs- (Rs. Thirty Lakhs and Forty Eight Thousand only)	Rs. 3.50/- lakhs (Rs. Three Lakh and Fifty Thousand only)	Rs. 20,000/-

**Batch : I**

**Last Date of Inspection :** 17.08.2021 till 5:00 P.M with KYC document & prior intimation to the Liquidator.  
**EOI Submission last date:** 18.08.2021 till 5:00 P.M

**Terms & Conditions of the proposed auction are as under:**

1. E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER IS BASIS" AND "WITHOUT RECOURSE BASIS" as such sale is without any kind of warranties and indemnities through approved service provider

2. M/s e-Procurement Technologies Limited -Auction Tiger (<https://ncltauction.auctiontiger.net>)

3. Bids shall be submitted to Liquidator online in the format prescribed. The bid form along with detailed terms & conditions of complete E-auction process can be downloaded from the website of <https://ncltauction.auctiontiger.net>

4. The details of the assets identified to be transferred along with the company are also provided in the above E-Auction Process Document.

5. The Liquidator has absolute right to accept or reject any or all bids or adjourn/postpone/cancel the E-Auction or withdraw any property or portion thereof from the E-Auction at any stage without assigning any reason therefor.

6. The Sale shall be subject to the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and Regulations made thereunder.

**Sd/-**  
**Vijay Kumar, Liquidator**  
Date : 15.08.2021  
Place : New Delhi  
IBBI Regn. No: IBBI/IP-02/IP-00652/2018-19/12020  
Email : tbbpl.liquidation@gmail.com

### ALANKIT LIMITED

CIN: L74900DL1989PLC036860  
Regd. Office: 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055

#### EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021

Sr. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)
1	Total Income from Operations	2,508.67	2,424.67	2,593.85	10,430.00	3,454.58	2,928.64	2,824.93	11,845.14
2	Net Profit/(Loss) for the period ( before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	364.42	159.02	369.34	1,308.78	545.			